

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2016—माघ 9, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2016

क्र. एफ-1-12-94-पैतालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विमानन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन

करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-चार में, कालम (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. संचालक, विमानन संचालनालय | — | अध्यक्ष |
| 2. चीफ इंजीनियर/मैटेनेंस मैनेजर, विमानन संचालनालय | — | सदस्य |
| 3. प्रशासकीय अधिकारी, विमानन संचालनालय | — | सदस्य-सचिव |

No. F. 1-12-94-XLV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Aviation (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1999, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-IV, in column (5), for existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Director, Directorate of Aviation | — | Chairman |
| 2. Chief Engineer/Maintenance Manager, Directorate of Aviation | — | Member |
| 3. Administrative Officer, Directorate of Aviation | — | Member Secretary |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद दुबे, उपसचिव.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 4th January 2016

No. 3.—In exercise of the powers conferred by the clause (2) of the Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur makes the following amendments in the, "High Court of Madhya Pradesh (Absorption and Condition of Services in respect of Officers and Employees of Abolished Madhya Pradesh Administrative Tribunal.) Service Rules, 2006" with immediate effect:—

1. Clause-iv of sub heading Class-I of Rule 7 be substituted by the following:—

(iv) **Deputy Registrar.**—By promotion from amongst the Assistant Registrar or by deputation from among Civil Judges (Class-I) of M.P. Lower Judicial Service.

2. Before Clause-i of sub heading Class-II of Rule 8, following be added:—

(i) **Assistant Registrar.**—By selection from amongst Private Secretaries/ Section Officers/ Protocol Officer/ Accounts Officer on the basis of ACRs of last 5 years, overall performance and working experience in the Administrative and Judicial Branches and on consideration of capability to perform duties assigned to an Assistant Registrar. The post of Assistant Registrar shall be filled from amongst the Officers of the Secretarial cadre and other Class-II cadre in the ratio of 40:60.

3. Existing Clause (i) of sub heading Class-II of Rule 8 be renumbered as (i-a).

VED PRAKASH, Registrar General.